



# कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

## रिक्ति अधिसूचना संदर्भ संख्या सीएसएल/नईपरि./सा./पीआरओपी व एपीपीआर/219(ए)/2022/4 दिनांक 05 फरवरी 2022

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनी रत्न कंपनी, सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू), कोलकाता के लिए निश्चित अवधि के अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु परियोजना सहायकों के निम्नलिखित पदों को भरने हेतु भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती है:-

### I. पदों का नाम, शैक्षिक योग्यता और अनुभव :

#### तालिका - 1

क्र. सं.	पद का नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
क.	परियोजना सहायक (यांत्रिक)	आवश्यक : राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम 60% अंकों के साथ यांत्रिक अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा। वांछनीय : कंप्यूटर एप्लिकेशनों जैसे एसएपी, एमएस प्रोजेक्ट, एमएस ऑफिस आदि में प्रवीणता।	योग्यता प्राप्त करने के बाद <ul style="list-style-type: none"><li>शिपयार्ड या</li><li>इंजीनियरिंग कंपनी या</li><li>सरकारी या अर्ध-सरकारी कंपनी/ स्थापना</li></ul> में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव।
ख	परियोजना सहायक (वाणिज्यिक)	आवश्यक : राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम 60% अंकों के साथ वाणिज्यिक कार्य में तीन वर्षीय डिप्लोमा। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60 % अंकों के साथ कला (ललित कला/प्रदर्शन कला के अलावा) विज्ञान/गणित/वाणिज्य/कंप्यूटर अनुप्रयोग/व्यवसाय प्रशासन में स्नातक की उपाधि। वांछनीय : कंप्यूटर एप्लिकेशनों जैसे एसएपी, एमएस प्रोजेक्ट, एमएस ऑफिस आदि में प्रवीणता।	योग्यता प्राप्त करने के बाद <ul style="list-style-type: none"><li>शिपयार्ड या</li><li>इंजीनियरिंग कंपनी या</li><li>वाणिज्यिक संगठन या</li><li>सरकारी या अर्ध-सरकारी कंपनी/ स्थापना</li></ul> में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव।



# कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक निरिक्त कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

उपरोक्त पदों के लिए उम्मीदवारों को बंगाली/हिंदी में संवाद करने की क्षमता होनी चाहिए।

## II. महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत : 08 फरवरी 2022

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 28 फरवरी 2022

## III. रिक्तियों और आरक्षणों की संख्या

तालिका - 2

क्रम सं.	पद का नाम	अनारक्षित	बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति
1.	परियोजना सहायक (यांत्रिक)	2	1
2.	परियोजना सहायक (वाणिज्यिक)	1	
	कुल	3	

क) सीएसएल को किसी भी विषय में रिक्तियों की संख्या बढ़ाने/घटाने या किसी भी रिक्तियों को भरने या भर्ती प्रक्रिया को अपनी आवश्यकता के अनुसार रद्द करने का अधिकार है।

ख) कुल 3 पदों में से एक पद दिव्यांग आवेदकों के लिए पहचाना गया है जो निम्नानुसार हैं:

तालिका 3

वर्ग	बेंचमार्क दिव्यांगजता	पदों की पहचान
श्रेणी (ख)	बहरा और सुनने में मुश्किल	क्रम संख्या 1 और 2
श्रेणी (ग)	सेरेब्रल पाल्सी, उपचारित कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड आक्रमण पीडितों और मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी सहित गतिशील दिव्यांगजता।	

## IV. अनुबंध की अवधि

क) उपरोक्त सभी पद अस्थायी प्रकृति के हैं और परियोजना की आवश्यकताओं और व्यक्तिगत निष्पादन के अधीन अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए हैं।



# कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिस्ट्रल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

ख) तैनाती, सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू)/किसी अन्य सीएसएल यूनिट/सीएसएल द्वारा वांछित किसी भी परियोजना स्थल पर होगी।

## V. पारिश्रमिक

पदों के लिए पारिश्रमिक विवरण नीचे दिया गया है:

### तालिका 3

अनुबंध अवधि	मासिक समेकित वेतन	प्रति माह अतिरिक्त घंटों के लिए मुआवज़ा
प्रथम वर्ष	₹ 24,400/-	₹ 5,100/-
द्वितीय वर्ष	₹ 25,100/-	₹ 5,200/-
तृतीय वर्ष	₹ 25,900/-	₹ 5,400/-

## VI. आयु

- क. पदों के लिए निर्धारित उच्चतम आयु सीमा दिनांक 28 फरवरी 2022 को 30 वर्ष होगी, यानी आवेदकों का जन्म दिनांक 29 फरवरी 1992 को या उसके बाद होना चाहिए।
- ख. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 45 वर्ष की छूट होगी।

## VII. चयन की विधि

- क) पदों के लिए चयन की विधि वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा और विवरणात्मक प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा के ज़रिए होगी, जो कुल 100 अंकों में आयोजित की जाएगी और तदनुसार अंक दिए जाएंगे।
- ख) प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, सीएसएल द्वारा तय की गई परीक्षा पश्चिम बंगाल में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र का आबंटन सीएसएल के निर्णय पर होगा।
- ग) वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा 90 मिनट की अवधि की होगी जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रों में 80 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है और कोई नेगेटिव अंक नहीं होगा। विवरणात्मक प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा 45 मिनट की होगी। वस्तुनिष्ठ और विवरणात्मक प्रकार की परीक्षा का विवरण इस प्रकार है :



# कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक निरिस्त कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

## (i) वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा

सामान्य ज्ञान -	5 अंक
तार्किक -	5 अंक
मात्रात्मक योग्यता -	10 अंक
सामान्य अंग्रेज़ी -	10 अंक
शाखा संबंधी -	50 अंक

(वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा)

## (ii) विवरणात्मक प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा

लेखन कौशल (अंग्रेज़ी भाषा) -	20 अंक
कुल -	100 अंक

- घ) वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा और विवरणात्मक प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम अनुबंध I पर है। कृपया ध्यान दें कि दिया गया पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है।
- ड) वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर शाखावार मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उम्मीदवारों को पदों की योग्यता के क्रम में वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक प्रकार की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। अगर एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान अंक प्राप्त होता है तो, वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा के शाखावार भाग में प्राप्त अंक मेरिट सूची के क्रम को निर्धारित करने का आधार होगा। उसके बाद बराबरी होने की स्थिति में, आयु में वरिष्ठता के आधार पर सापेक्ष योग्यता का निर्णय किया जाएगा। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक और उससे अधिक अंक प्राप्त करनेवाले उम्मीदवारों को योग्यता क्रम में प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए लघुसूचीगत किया जाएगा। सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्रत्येक परीक्षा के कुल अंकों का 50% होगा।
- च) प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, सीएसएल द्वारा विभिन्न पदों के लिए आवेदनों की जांच करने और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों के ज़रिए सुनिश्चित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर उम्मीदवारों की लघुसूची तैयार की जाएगी और केवल ऐसे लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को ही चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।



# कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक निरिस्त कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

छ) केवल वे उम्मीदवार जो प्रमाणपत्र सत्यापन को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, उन्हें चिकित्सा स्वस्थता के अधीन योग्यता के क्रम में अधिसूचित पदों के लिए चयन हेतु अस्थायी रूप से माना जाएगा।

## VIII. शर्तें

### क. आरक्षण

- (i) आरक्षण पर भारत सरकार के निदेश लागू होंगे।
- (ii) बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में, दिव्यांगजता की डिग्री न्यूनतम 40% होनी चाहिए। आवेदक को इसके लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया एक वैध दिव्यांगजता प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना चाहिए।

### ख. योग्यता

- (i) पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई या राज्य/केंद्र सरकार में उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण से द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।
- (ii) किसी भी निर्धारित योग्यता के समकक्ष योग्यता रखने वाले आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समकक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और ऐसे प्रमाणपत्र के बिना उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iii) परियोजना सहायक (यांत्रिक) के पद के लिए, निर्धारित योग्यता के बिना, लेकिन बी.टेक, एमएससी आदि जैसे उच्च योग्यता रखने वाले आवेदकों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iv) आवेदकों को पदों के लिए जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन में अर्हक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों का सटीक प्रतिशत भरना आवश्यक है। कुछ विश्वविद्यालय /संस्थान /परीक्षा बोर्ड श्रेणी या अंकों का प्रतिशत नहीं देते हैं और समग्र ग्रेड अंक आबंटित करते हैं (जैसे, सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई, आदि)। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड कुल ग्रेड अंक को श्रेणी और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने का मानदंड निर्धारित करते हैं, तो उसे स्वीकार किया जाएगा। हालांकि, जहां विश्वविद्यालय /संस्थान/परीक्षा कुल ग्रेड अंक को श्रेणी और/या अंकों के प्रतिशत में बदलने के मानदंड को निर्धारित नहीं करता है, वहां अपेक्षित प्रतिशत अंक प्राप्त करने के लिए कुल ग्रेड अंकों को 10 से गुणा किया जा सकता है।



# कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक निरिस्त कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

## ग. अनुभव

- (i) उपरोक्त मद I के अनुसार निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण करने की तिथि के बाद प्राप्त अनुभव पर ही विचार किया जाएगा। योग्यता के बाद के अनुभव की अवधि की गणना दिनांक 28 फरवरी 2022 से की जाएगी।
- (ii) शिक्षा अधिनियम 1961 के तहत उचित शाखा में पूर्ण शिक्षता प्रशिक्षण की अवधि को अनुभव के रूप में माना जाएगा। पारिश्रमिक के साथ किसी भी प्रशिक्षण को भी अनुभव के रूप में माना जाएगा।
- (iii) कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों या समकक्ष स्तर की विदेशी कंपनियों से प्राप्त अनुभव प्रमाणपत्र ही केवल चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु लघुसूचीयन के लिए विचार किया जाएगा।
- (iv) आवेदक जो हाल ही में किसी कंपनी (निजी/सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी) में कार्यरत हैं, वे अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में, कंपनी द्वारा जारी नियुक्ति/प्रस्ताव पत्र की प्रति, नवीनतम वेतन पर्ची/आखिरी वेतन की प्रति आदि अनुभव के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पिछले रोजगार के लिए कार्यभार ग्रहण करने के साथ-साथ कार्यमुक्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रमाणपत्र सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए अनुभव को स्थापित करने हेतु मूल रूप में सभी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उन्हें आगे के चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- (v) आवेदक जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति प्रमाणपत्र/बुक/पेंशन भुगतान आदेश प्रस्तुत करना होगा। जिन भूतपूर्व सैनिकों की योग्यता उनके सेवामुक्ति प्रमाणपत्र/पुस्तक में पृष्ठांकित है, उन्हें सशस्त्र बलों में संबंधित शाखा में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। योग्यता की समतुल्यता का दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को प्रमाणपत्र सत्यापन के दौरान अनुभव के प्रमाण के रूप में प्राधिकारियों से (भारत सरकार द्वारा जारी आदेश देखें) सेवामुक्ति प्रमाणपत्र में समतुल्यता या समर्थन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, सशस्त्र बलों में उचित शाखा में योग्यता और कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें संबंधित प्राधिकारियों से अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vi) कंपनियों द्वारा लगाए गए ठेकेदारों (स्वामित्व वाली फर्मों और साझेदारी फर्मों) से प्राप्त कार्य अनुभव को ठेकेदार द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों पर प्रधान नियोक्ता के पृष्ठांकन के आधार



# कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक निरिक्त कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

पर माना जा सकता है। ऐसे आवेदकों को ईएसआई/ईपीएफ विवरण जैसे अन्य प्रमाणपत्रों के साथ अपना अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रधान नियोक्ता के पृष्ठांकन के बिना ठेकेदारों द्वारा जारी किए गए प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

- (vii) आवेदक जो रिक्ति अधिसूचना की तारीख को सीएसएल या सीएसएल की इकाइयों के रोल पर अनुबंध के अंतिम वर्ष में हैं, वे अन्य सभी अधिसूचित अपेक्षाओं को पूरा करने के पश्चात आवेदन करने के पात्र हैं। जो सीएसएल या सीएसएल की इकाइयों में अनुबंध के पहले और दूसरे वर्ष में हैं, वे उसी पद के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- (viii) आवेदकों को स्पष्ट रूप से निष्पादित कार्यों की प्रकृति और संबंधित कार्यों में कर्तव्यों, जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए, साथ ही इसके प्रमाण में अनुभव प्रमाणपत्र अधिसूचित पदों के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय अपलोड किया जाना चाहिए।

## घ. आवेदन शुल्क

- (i) ऑनलाइन भुगतान विकल्पों (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/वॉलेट/यूपीआई आदि) का उपयोग करके 300/- रुपए का आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय, अतिरिक्त बैंक शुल्क सहित) प्रेषित किया जाना चाहिए, जिसे हमारी ऑनलाइन आवेदन सुविधा के ज़रिए दिनांक 08 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक अभिगमन किया जा सकता है। भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (ii) अनुसूचित जाति (अ.जा)/ अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/ बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) से संबंधित आवेदकों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
- (iii) सभी आवेदक जिनके लिए शुल्क लागू है, (अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग व्यक्ति को छोड़कर, उपरोक्त खंड घ (i) में निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए। यह ध्यान दिया जाए कि उनकी उम्मीदवारी पर केवल आवेदन शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।





# कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक निरिक्त कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

## ड. आवेदन कैसे करें

- (i) आवेदकों को वेबसाइट [www.cochinshipyard.in](http://www.cochinshipyard.in) (कैरियर पृष्ठ) पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक की ओर बढ़ें। आवेदन में दो चरण होते हैं – पंजीकरण और आवेदन जमा करना। आवेदकों को एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन जमा नहीं करना चाहिए। एक बार जमा किया गया आवेदन अंतिम होगा।
- (ii) अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले आवेदक ऑनलाइन आवेदन पृष्ठ के ज़रिए जाकर पंजीकरण पूरा कर सकते हैं और दिनांक 08 फरवरी 2022 से ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं और यह सुविधा हमारी वेबसाइट [www.cochinshipyard.in](http://www.cochinshipyard.in) (कैरियर पृष्ठ) के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। सीधे या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (iii) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही ढंग से भरी गई हैं और आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन में प्रदान किए गए विवरण में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र में कचरा विवरण भरने से आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
- (iv) इस विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (v) ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने के बाद, आवेदकों को उनके संदर्भ के लिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न एकमात्र पंजीकरण संख्यावाले ऑनलाइन आवेदन की एक सॉफ्ट कॉपी/मुद्रित प्रति को अपने पास रखना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, एकमात्र पंजीकरण संख्या केवल ऑनलाइन आवेदन के सफलतापूर्वक प्रस्तुति पर ही प्राप्त की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पर पंजीकरण संख्या सीकेएसआरयू के साथ किसी भी पत्राचार के लिए उद्धृत की जानी चाहिए।
- (vi) आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति/प्रमाणपत्र/डीडी/चालान/चेक के रूप में आवेदन शुल्क सीकेएसआरयू/सीएसएल को डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।
- (vii) वेबसाइट दिनांक 08 फरवरी 2022 से आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कार्यशील रहेगी और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 28 फरवरी 2022 है। अंतिम तिथि पर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने के लिए, जिसके





# कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिस्ट्रल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

परिणामस्वरूप आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसएल वेबसाइट पर लॉग इन करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदन करनेवालों को अंतिम तिथि के 1600 बजे के बाद ई-मेल / फोन द्वारा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है।

## च. सामान्य

(i) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद के लिए रिक्त अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।

(ii) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा:- भूतपूर्व सैनिक एक व्यक्ति है।

क. जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में किसी भी रैंक में योद्धा या गैर-योद्धा के रूप में सेवा की है, और

(i) जो या तो अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्ति या कार्यमुक्त या ऐसी सेवा से मुक्त किया गया है; या

(ii) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित किया गया हो; या

(iii) स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से जिसे मुक्त किया गया है।

(ख) जो इस तरह की सेवा से अनुबंध की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के पश्चात, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या बर्खास्तगी, या कदाचार या अक्षमता के कारण निर्वहन के ज़रिए मुक्त किया गया हो, और एक उपदान दी गई है; और प्रादेशिक सेना के कार्मिक, अर्थात् निरंतर सन्निहित सेवा या अर्हक सेवा के टूटी हुई अवधि के लिए पेंशन धारक इसमें शामिल हैं; या

(ग) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना के हिस्सा हैं और सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेवानिवृत्त हुए हैं, या सेना डाक सेवा से चिकित्सा आधार पर जारी किए गए हैं या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से परे और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित; या



# कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिस्ट्रल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- (घ) कार्मिक, जो अप्रैल 14, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या
- (ङ) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; या
- (च) चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किए गए या निकाले गए पूर्व-भर्ती और जिन्हें चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्रदान किया जा रहा हो।
- (iii) सीएसएल को उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं के समर्थन में किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज़ी प्रमाण का मांग करने का अधिकार है, जैसा कि उनके आवेदन में दर्शाया गया है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना/उत्तर केवल ई-मेल [career.cksru@cochinshipyard.in](mailto:career.cksru@cochinshipyard.in) के ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, सीकेएसआरयू निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेल की किसी भी विलंब/प्राप्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस संबंध में आगे किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iv) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय या सीएसएल की ओर से सीकेएसआरयू द्वारा तय किए गए किसी अन्य चरण में फिर से सत्यापित किया जाएगा। आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगता, चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने पर उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी है। प्रमाणपत्र सत्यापन/शामिल होने के समय यदि उपरोक्त सूचीबद्ध उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी/गलत है या किसी भी उचित जानकारी को छिपाया जा रहा है, तो उम्मीदवार के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।
- (v) अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vi) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा। उन्हें बुलावा पत्र ई-मेल/सीएसएल वेबसाइट [www.cochinshipyard.in](http://www.cochinshipyard.in) के ज़रिए डाउनलोड करने के लिए सूचित किया जाएगा। चयन की अनुसूची ई-मेल/सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ) के ज़रिए लघुसूचीगत आवेदकों को सूचित की जाएगी।



# कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिस्ट्रल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- (vii) चयन में भाग लेने हेतु उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (viii) केवल ऑनलाइन के ज़रिए आवेदन जमा करने और चयन हेतु बुलावा पत्र जारी करने से आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं मिल जाता या पात्रता मानदंड को पूरा करने की पावती के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- (ix) रिक्तियां पूर्ण रूप से एक विशिष्ट अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर हैं और सीएसएल की तरफ से सीकेएसआरयू चयनित उम्मीदवारों की अनुबंध अवधि के दौरान या उसके पश्चात नियुक्ति का प्रस्ताव करने हेतु उत्तरदायी नहीं है।
- (x) नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच किया जाना है। ऐसी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट की जांच सीकेएसआरयू की तरफ से सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी और उम्मीदवार की नियुक्ति सीकेएसआरयू की तरफ से सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणीकरण के अधीन होगी।
- (xi) सीएसएल सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले कार्यरत किसी उम्मीदवार के पिछले रोजगार से संबंधित वेतन/छुट्टी वेतन/उपदान/पेंशन अंशदान आदि, यदि कोई हो, के लिए कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।
- (xii) सभी पदों के लिए रैंक सूची का रखरखाव किया जाएगा और केवल रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान कोई रिक्ति होने की स्थिति में संचालित किया जाएगा। रैंक सूची की वैधता अवधि परिणाम के प्रकाशन पर शामिल होने की सलाह देने वाले उम्मीदवारों की सूची से अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक होगी, जब तक कि उसी पद के लिए एक नई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, रिक्ति को एक नई रिक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।
- (xiii) अनुच्छेद I में दर्शाए गए पदों की संख्या वर्तमान आवश्यकता पर आधारित है और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर अलग होगी और रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को सीएसएल की तरफ से सीकेएसआरयू के निर्णय पर उस रैंक सूची से भरा जाएगा।



# कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक निरिस्त कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- (xiv) उपरोक्त या किन्हीं अन्य शर्तों के बावजूद, सीएसएल की तरफ से, सीकेएसआरयू अधिसूचित रिक्तियों को न भरने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरना, रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और नौकरी की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यक हो तो बिना किसी सूचना के या बिना कोई कारण बताए सीएसएल को भर्ती प्रक्रिया प्रतिबंधित करने/बदलने/रद्द करने/संशोधित करने का अधिकार है।
- (xv) यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी झूठा/गलत है या उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द/अस्वीकार की जा सकती है।
- (xvi) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेजों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।
- (xvii) इस विज्ञापन से उठने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्रवाई/और या उसके जवाब में एक आवेदन और उसके बाद चयन प्रक्रिया केवल एर्णाकुलम के न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/फॉरम में संस्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों/प्राधिकरणों का एकमात्र और अनन्य अधिकार क्षेत्र होगा।
- (xviii) इस विज्ञापन में कोई संशोधन, सुधार या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।
- (xix) कोई भी संदेह हेतु, कृपया ई-मेल [career.cksru@cochinshipyard.in](mailto:career.cksru@cochinshipyard.in) द्वारा हमसे संपर्क करें।

“किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।”

“केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।”

ह/-

महाप्रबंधक (मानव संसाधन)